

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
 Regd. Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan) CIN : L17124RJ2005PLC020927
 Tel : (07433)222052/82/90, Email: hoffice@sutlejtextiles.com, Website: www.sutlejtextiles.com

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPT., 2022 (₹ in Crore)

Particulars	3 Months Ended		Preceding 3 Months Ended		Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year		Year to date Figures for Current Period Ended		Year to date Figures for Previous Period Ended		Previous Accounting Year Ended	
	30.09.2022		30.06.2022		30.09.2021		30.09.2022		30.09.2021		31.03.2022	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations	819.57	845.99	786.05	1665.56	1372.79	3076.46						
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	49.39	93.17	64.59	142.56	98.25	243.53						
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	49.39	69.51	64.59	118.90	98.25	235.72						
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	31.31	45.38	41.68	76.69	62.07	150.23						
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	31.89	46.08	41.84	77.97	62.49	150.24						
Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 1/- per share)	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38	16.38						
Other Equity						1083.59						
Earnings Per Share before / after extraordinary items (of ₹ 1/- each) (not annualised)												
a) Basic :	1.91	2.77	2.54	4.68	3.79	9.17						
b) Diluted :	1.91	2.77	2.54	4.68	3.79	9.17						

Key information on Standalone Financial Results (₹ in Crore)

Particulars	3 Months Ended		Preceding 3 Months Ended		Corresponding 3 Months Ended in the Previous Year		Year to date Figures for Current Period Ended		Year to date Figures for Previous Period Ended		Previous Accounting Year Ended	
	30.09.2022		30.06.2022		30.09.2021		30.09.2022		30.09.2021		31.03.2022	
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Audited
Total Income from Operations	809.95	837.30	778.86	1647.25	1356.63	3041.98						
Profit Before exceptional items and tax	50.61	92.48	63.52	143.09	100.78	248.87						
Profit Before Tax	50.61	68.82	63.52	119.43	100.78	241.06						
Profit After Tax	32.45	44.71	40.63	77.16	64.65	155.68						
Total Comprehensive Income	32.32	44.55	40.80	76.87	64.98	155.07						

Notes:
 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on 3 November 2022 and 4 November 2022.
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial results for the three months and half year ended 30 September 2022 are available on Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and on Company's website www.sutlejtextiles.com.
 For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED
 Place : Mumbai
 Date : 4 November, 2022
 (Rajib Mukhopadhyay)
 Whole-time Director & CFO

RAMA PHOSPHATES LIMITED
 An ISO 9001 :2015 Company
 Regd. Office: 51/52, Free Press House, Nariman Point, Mumbai-400 021
 Tel.No.: 022-2283 3355/6154 5100; Fax: 022-22049946; Email: compliance@ramaphosphates.com;
 Website: www.ramaphosphates.com; Corporate Identification No.: L24110MH1984PLC033917

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022 (₹ in Lacs)

Particulars	Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended
	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2022	30.09.2021	31.03.2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from operations (net)	25,003.65	17,483.22	24,829.76	42,486.87	43,094.90	88,192.18
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	1,863.20	2,036.96	3,103.82	3,900.16	5,788.46	9,392.75
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extra ordinary items)	1,863.20	2,036.96	3,103.82	3,900.16	5,788.46	9,392.75
Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items	1,378.54	1,546.78	2,271.91	2,925.32	4,263.08	7,003.71
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	1,368.24	1,539.14	2,229.66	2,907.38	4,209.06	6,981.88
Equity Share Capital	1,767.43	1,767.43	1,767.43	1,767.43	1,767.43	1,767.43
Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	25,196.94	25,196.94	18,660.68	25,196.94	18,660.68	25,196.94
	(As on 31.03.2022)	(As on 31.03.2022)	(As on 31.03.2021)	(As on 31.03.2022)	(As on 31.03.2021)	(As on 31.3.2022)
Earning Per Share (before extraordinary items) of ₹ 10/- each						
Basic - ₹	7.79	8.74	12.84	16.53	24.09	39.58
Diluted - ₹	7.79	8.74	12.84	16.53	24.09	39.58
Earning Per Share (after extraordinary items) of ₹ 10/- each						
Basic - ₹	7.79	8.74	12.84	16.53	24.09	39.58
Diluted - ₹	7.79	8.74	12.84	16.53	24.09	39.58

Notes:
 1) The above result have been reviewed by the Audit Committee and were taken on the record by the Board at their Board meeting held on 4th November, 2022. The Statutory Auditor have carried out a Limited Review of the Unaudited Financial Result for the quarter & half year ended 30th September, 2022.
 2) Commissioning of new Dhule plant is in progress, plant and machinery has already arrived at plant site for fertiliser plant. In the meanwhile, we are awaiting environmental clearance from MOEF shortly.
 3) Tax, including Deferred tax is accounted based on quarterly results and difference, if any, will be adjusted in the last quarter for annual tax/deferred tax.
 4) The Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and the other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 5) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Result filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com)
 6) Figures of the previous quarter/period have been regrouped/rearranged, wherever necessary to make them comparable.

By order of the Board
For Rama Phosphates Ltd.
 H. D. Ramsinghani
 Chairman & Managing Director
 DIN : 00035416
 Place : Mumbai
 Date : 4th November, 2022

ADOR FONTECH LIMITED
 Belview 7 Haudin Road Bengaluru 560 042
 CIN: L31909KA1974PLC020010 T: 080 25596045
 E: investorservice@adorfon.com; www.adorfon.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2022 (₹ in lakhs)

Sl No.	Particulars	Standalone						Consolidated					
		Quarter ended		Half year ended		Year ended		Quarter ended		Half year ended		Year ended	
		30.09.22	30.06.22	30.09.21	30.09.22	30.09.21	31.03.22	30.09.22	30.06.22	30.09.21	30.09.22	30.09.21	31.03.22
1	Total income from operations (net)	5164	4982	5344	10146	10760	21040	5308	5072	5486	10380	10987	21405
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	726	717	849	1443	1705	3505	562	536	759	1098	1491	2966
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	726	717	849	1443	1705	3505	562	536	759	1098	1491	2966
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	482	506	575	988	1324	2544	318	325	485	643	1110	2139
5	Total comprehensive income for the period (comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	483	513	587	996	1349	2563	319	332	497	651	1135	2158
6	Equity share capital	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
7	Reserves (excluding revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						13270						11581
8	Earnings per share (of Rs.2/- each) (for continuing and discontinued operations)												
	Basic	1.4	1.4	1.6	2.8	3.8	7.3	0.9	0.9	1.4	1.8	3.2	6.1
	Diluted	1.4	1.4	1.6	2.8	3.8	7.3	0.9	0.9	1.4	1.8	3.2	6.1

Notes:
 (i) The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the website of the Bombay Stock Exchange - www.bseindia.com and on the Company's website - www.adorfon.com.
 (ii) These statements have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind-AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
 (iii) The consolidated financial results comprise Ador Fotech Limited and its wholly owned subsidiary - 3D Future Technologies Private Limited.
 (iv) In terms of para 12 of Ind-AS-108, the Company views its business operations in a holistic manner and hence segment reporting is not applicable w.r.t. Standalone Financial Statements. However, the nature of business of the Holding and Subsidiary being distinct, aggregation in terms of the Consolidated Financial Statements have been reported as part of Segment Reporting.
 (v) Regrouping of data have been done to facilitate comparison.
 (vi) The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 3, 2022.
 (vii) The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the financial statements for the quarter and half year ended September 30, 2022.
 Bengaluru
 Nov 03, 2022
 For Ador Fotech Limited
 AT Malkani
 Chairman
 Note: Refer publication dated 04.11.2022. The revenue in respect of consolidated results for the quarter ended September 30, 2022 was reported correctly in the Consolidated Statement of Profit and Loss but for a typographical error in this sheet. It was published as Rs. 5038 instead of Rs. 5308. Request to kindly take note of the correction/update made herein above.

ADOR WELDING LIMITED
 Regd. Office: Ador House, 6, K. Dubash Marg, Fort, Mumbai - 400 001-16, Maharashtra, India.
 Tel: +91 22 66239300 / 22842525 | Fax: +91 22 22873083
 E-mail - investorservices@adorians.com | Website- www.adorwelding.com
 CIN : L70100MH1951PLC008647

EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022 (Rs. in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended		Half year ended		Year ended	
		30 September 2022	30 June 2022	30 September 2021	30 September 2022	30 September 2021	31 March 2022
		(Unaudited)			(Audited)		
1	Revenue from operations	18,487	15,788	15,951	34,275	28,739	66,148
2	Other income	155	203	134	358	293	541
3	Total income	18,642	15,991	16,085	34,633	29,032	66,689
4	Profit before exceptional items and tax	1,334	1,515	1,057	2,849	1,965	4,925
5	Exceptional items (net) (Loss) (Refer note 3)	-	(125)	715	(125)	715	898
6	Profit before tax	1,334	1,390	1,772	2,724	2,680	5,823
7	Net Profit after tax	998	1,046	1,464	2,044	2,139	4,519
8	Total comprehensive income for the period (after tax)	940	1,046	1,386	1,986	2,061	4,458
9	Equity share capital	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
10	Other equity (excluding revaluation reserve Rs. Nil)	-	-	-	-	-	26,841
11	Earnings per share (EPS) (net of tax) (in Rs.)						
	Basic and diluted EPS (not annualised) (of Rs. 10/- each)	7.34	7.69	10.76	15.03	15.73	33.23

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022 (Rs. in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter ended		Half year ended		Year ended	
		30 September 2022	30 June 2022	30 September 2021	30 September 2022	30 September 2021	31 March 2022
		(Unaudited)			(Audited)		
1	Revenue from operations	18,487	15,788	15,951	34,275	28,739	66,148
2	Other income	156	203	137	359	298	548
3	Total income	18,643	15,991	16,088	34,634	29,037	66,696
4	Profit before exceptional items and tax	1,334	1,510	1,057	2,844	1,965	4,923
5	Exceptional items (net) (Loss) (Refer note 3)	-	(125)	715	(125)	715	898
6	Profit before tax	1,334	1,385	1,772	2,719	2,680	5,821
7	Net Profit after tax	998	1,041	1,464	2,039	2,139	4,516
8	Total comprehensive income for the period (after tax)	940	1,041	1,386	1,981	2,061	4,455
9	Equity share capital	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360
10	Other equity (excluding revaluation reserve Rs. Nil)	-	-	-	-	-	26,849
11	Earnings per share (EPS) (net of tax) (in Rs.)						
	Basic and diluted EPS (not annualised) (of Rs. 10/- each)	7.34	7.65	10.76	14.99	15.73	33.21

Notes:
 1) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 04 November 2022.
 2) The above financial results have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies, to the extent applicable.
 3) **Exceptional items**

Particulars	Quarter ended		Half year ended		Year ended	
	30 September 2022	30 June 2022	30 September 2021	30 September 2022	30 September 2021	31 March 2022
	(Unaudited)			(Audited)		
Impairment in the value of the wire manufacturing facility [Refer note a below]	-	(125)	-	(125)	-	-
Balances with government authorities written off [Refer note b below]	-	-	-	-	-	(380)
Provisions for cost overrun and other incidental costs [Refer note c below]	-	-	-	-	-	(820)
Profit on sale of Properties [Refer note d below]	-	-	715	-	715	2,098
Total	-	(125)	715	(125)	715	898

a) During the previous quarter, the Company had evaluated its Capital work in progress relating to one of the manufacturing facility of wires and considering the underlying facts and future economic benefits from the same, it had recognised an impairment amounting to Rs. 125 lakhs. The same had been shown under exceptional items.
 b) In the previous year, the Company had availed the benefit of Amnesty scheme announced by the Government of Maharashtra, for pending sales tax appeal and had written off Rs. 380 lakhs towards disputed VAT input tax credit matter (ITC) which was pending before CESTAT, VAT tribunal during the previous year.
 c) In the previous year, the Company had sold one project, which was in progress (as is where is basis) to a third party and booked an additional cost of Rs. 535 lakhs towards compensation to buyer for future estimated losses, expected liquidated damage and other incidental costs. (It includes provision of Rs. 230 lakhs and Rs.305 lakhs towards write off). Also during the previous year, the Company had made a provision of Rs. 285 lakhs towards cost incurred on crematorium projects of Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) and expected liquidated damages, as estimated by the Management.
 d) In the previous year, the Company had sold three properties situated at Delhi (Narayana), Silvassa and Ahmednagar and the profit on sale was recognised as an exceptional item.
 4) The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 28 May 2021, had approved the Scheme of Amalgamation (merger by absorption) of its 100% Subsidiary Company, Ador Welding Academy Private Limited ("Transferor Company") with Ador Welding Limited ("Transferee Company" or "the Company"). The Management had, accordingly, filed application for approving the scheme of amalgamation with the National Company Law Tribunal (NCLT), Mumbai bench. The said application was disposed off by NCLT vide its order dated 08 December 2021. The Company has complied with the instructions given in the said Order and the petition for the scheme of amalgamation is still pending with NCLT, Mumbai bench for hearing/approval. Hence no adjustment has been made in the books of account of the Holding Company and in the standalone financial results upto the period ending 30 September 2022.
 5) The Board of Directors of the Company, at its meeting held on 31 May 2022, had approved the Scheme of Amalgamation (merger by absorption) of Ador Fotech Limited ("Transferor Company") with Ador Welding Limited ("Transferee Company" or "the Company"). The Company has obtained

